



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 1975/ज्येष्ठ 21, 1897

No. 156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 1975/JYAISTHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 11th June 1975

**G.S.R. 329(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Schedule below, when imported into India by the Government of India, or by a person authorised by the Government of India, or shipped on the order of a Department of the Government of India, for use in anti-smuggling operations and appropriated under such order at the time of shipment, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and the additional duty wherever leviable thereon under section 2A of the second-mentioned Act:

Provided that the importer shall produce a certificate from the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, to the effect that the goods in respect of which the exemption is claimed are intended for use in anti-smuggling operations.

## SCHEDULE

1. Machines, appliances, instruments and components thereof, required for the maintenance of patrol crafts.
2. Wireless transmission and receiving sets and their components.
3. Night vision equipment and their components.
4. Arms and their components and ammunition.
5. Spare parts in respect of any of the items specified above.

[No. 60/F. No. 370/57/74-Cus.1]

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व और बीमा विभाग)

## अधिसूचनाएं

## सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 11 जून, 1975

सा० का० नि० 329 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को, तब जब उसका भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, तस्करी विरोधी अभियान में उपयोग के लिए भारत में आयात किया जाए, या भारत सरकार के किसी विभाग के आदेश पर नौवाहित किया जाए, और नौभरण के समय ऐसे आदेश के अधीन उपयोग में लाया जाए, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क से, जहां भी वह उस पर उद्ग्रहणीय है, छूट देती है :

परन्तु आयातकर्ता, भारत सरकार के, वित्त मंत्रालय के, राजस्व और बीमा विभाग के अध्वर सचिव, से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह माल, जिसकी बाबत छूट के लिए दावा किया गया है, तस्करी विरोधी अभियान में उपयोग के आशायित है ।

## अनुसूची

1. गश्ती यानों के रख-रखाव के लिए अपेक्षित मशीनों, माधित्र, उपकरण और उनके संघटक ।
2. बतार प्रेषण और ग्रहण सेट तथा उनके संघटक ।
3. रात में देखने के उपस्कर और उनके संघटक ।
4. आयुध और उनके संघटक तथा गोलाबारूद ।
5. उपर विनिर्दिष्ट मदों में से किसी की बाबत स्पेयर पृजे ।

[सं० 60/फा० सं० 370/57/74-कस 1]

**G.S.R. 330(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of Section 31 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 35-Customs, dated the 12th May, 1975, namely :—

In the Schedule below the said notification, after Serial No. 101 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“102 No. 60-Customs, dated the 11th June, 1975.”

[No. 61/F. No. 370/57/74-Cus.1]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

सा० का० नि० 330 (अ).—वित्त अधिनियम, 1975, (1975 का 25) की धारा 31 क उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 35—सीमा-शुल्क, तारीख 12 मई, 1975, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं० 101 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“102 सं० 60—सीमा-शुल्क, तारीख 11 जून, 1975।”

[सं० 61/फा० सं० 370/57/74—सीमा-शु० 1]

ब० च० रस्तोगी, उपसचिव ।

